

तुरंत रिलीज के लिए

परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्रैम्पटन पूरा अगस्त लाइव संगीत, थिएटर और संस्कृति को पेश कर रहा है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (12 अगस्त, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, गार्डन सक्वेयर (Garden Square) और द रोज ब्रैम्पटन (The Rose Brampton), दोनों में इस गर्मी, सभी के आनंद लेने के लिए, लाइव संगीत, थिएटरीकल मनोरंजन और संस्कृति को पेश करने के लिए उत्साहित है।

परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्रैम्पटन (Performing Arts Brampton), निम्नलिखित शोज की मेजबानी कर रहा है:

स्टॉप एन स्टैंपीड (Stomp N Stampede) – 13 अगस्त, शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक, गार्डन सक्वेयर ब्रैम्पटन

अपनी चरवाहा टोपी और बूट लें – और हो सके तो डांसिंग पार्टनर भी! स्टॉप एन स्टैंपीड, 13 अगस्त को कंट्री की सभी चीजों का जशन मनाने के लिए गार्डन सक्वेयर में वापस आ गया है! मेजबान डी.जे. जॉनी रिवेक्स (Johnny Rivex) स्पिनिंग लाइव और हेडलाइनर निकोल रे (Nicole Rayy) की परफॉर्मेंस का आनंद लें। साथ ही, डबल ट्रबल (Double Trouble) लाइन डांसर्स से लाइन डांसिंग लेसन न छोड़ें।

एकरोस द पॉंड (Across The Pond) – 25 अगस्त, रात 8 बजे, द रोज ब्रैम्पटन

लीजा वे (Leisa Way) और बेहद प्रतिभावान 5-पीस लोनली हार्ट्स क्लब बैंड (Lonely Hearts Club Band) से जुड़ें, जब वे आपको एक इलेक्ट्रिफाइंग म्यूजिकल एडवेंचर पर ले जाएंगे। इतिहास के शानदार समय में जाएं, जब लिवरपूल (Liverpool) के चार घने बालों वाले लड़कों की तरफ से ब्रिटिश पॉप म्यूजिक "एकरोस द पॉंड" पेश किया जाएगा, जिन्हें बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। पूरे नॉर्थ अमेरिका में तेजी से फैलते हुए, यह "द ब्रिटिश इनवेजन" ("The British Invasion") के नाम से प्रसिद्ध हो गया और कोड वर्ड, "बीटलमनिया" ("Beatlemania") के साथ शुरू होने लगा!

एकरोस द पॉंड, संगीत की बादशाहत को सलाम करते हुए, ब्रिटिश पॉप और रॉक म्यूजिक के 50 वर्षों का जशन मनाता है और 60 के दशक से लेकर आज के सबसे बड़े स्टार्स के रोमांचक हिट्स पेश करता है, जैसे: द बीटल्स (The Beatles), द रोलिंग स्टोन्स (The Rolling Stones), एल्टन जॉन (Elton John), टॉम जॉन्स (Tom Jones), एल्विस कोस्टेलो (Elvis Costello), द वू (The Who), स्टिंग एंड द पुलिस (Sting & the Police); ऐनी लेनोक्स (Annie Lennox), द किक्स (The Kinks) तथा कई अन्य! इस कमाल के हिट कोन्सर्ट में आनंद की रात के लिए अपने डांसिंग बूट पहनें, जिससे आप चूकना नहीं चाहेंगे!

मॉन्सून साउंड (Monsoon Sound) – 27 अगस्त, शाम 7 बजे, द रोज ब्रैम्पटन लॉबी

परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्रैम्पटन को ऐसी कम्युनिटी के लिए काम करने पर गर्व है, जहां इसके 44.3 निवासी, साउथ एशियन वंश से हैं। इस खूबसूरत मौजैक में सम्पन्न हो रही, युवा साउथ एशियन कम्युनिटीज, नई आवाजों और अभिव्यक्ति के नए रूपों के साथ उभर रही हैं।

साउथ एशियन हिप हॉप के विकसित होने के अलग-अलग संस्कृतियों के बेजोड़ मिश्रण देखें, जहां भंगड़े जैसी पारंपरिक साउंड्स, हर किसी के साथ घुलमिल जाती हैं, क्लासिक बूम-बैप, स्मूद जैज़-रैप से लेकर ट्रैप बीट्स तक, नोएज़ (Noyz) के द्वारा तैयार किए गए मुफ्त साउथ एशियन हिप हॉप फेस्टिवल में पेश किया जाएगा:

- सिख नॉलेज एंड हे बॉम्बे (Sikh Knowledge & Hey Bombay)
- डी.जे. रोशनी (DJ Roshanie)
- सिद्धार्थ (Siddhartha)
- केरालंका (Keralanka)
- तनवीर रोज (Tanvir Rose)
- स्पिट्टी (Spitty)

सितम्बर में होने वाले प्रोग्राम

फ्लो फेस्ट (Flow Fest) – 17 सितम्बर, शाम 7:30 बजे, द रोज ब्रैम्पटन

पहले फ्लो फेस्ट, ब्रैम्पटन इंटरनेशनल ड्रमिंग फेस्टिवल (Brampton International Drumming Festival) में अपने धड़कते दिलों को खोलें! इस रोमांचक शाम में हेडलाइनर्स, द लार्नेल लेविस बैंड (The Larnell Lewis Band) और द जॉय लैप्स प्रोजेक्ट (The Joy Lapps Project) को पेश किया जाएगा। ग्रैमी अवॉर्ड विजेता, ब्रैम्पटन में पले-बढ़े संगीतकार, कम्पोजर और एजुकएटर, लार्नेल लेविस और ग्रैमी-नामांकित संगीतकार, कम्पोजर और एजुकएटर, जॉय लैप्स, एफ्रो-कैरेबियन (Afro-Caribbean) और जैज़ गायक मंडलियों के म्युजिकल फ्यूजन का नेतृत्व करेंगे, जो दर्शकों के दिलों को जरूर इकट्ठे करेगा।

कैनेडा की युवाओं के नेतृत्व वाली प्रीमियर गायक मंडलियों में से एक, नगोमा (Ngoma) के साथ डांस, ड्रम और पार्टी। रात यहीं नहीं रुकती – डी.जे. जोशुआ ल्यूक्स (Joshua Lucas) के साथ, घूमती म्युजिकल मंडलियों, भोजन, कला प्रदर्शनी आदि के साथ, दर्शक ड्रमिंग, संगीत और पूरी दुनिया की संस्कृति की एक शाम में पूरी तरह से लीन हो जाएंगे।

परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्रैम्पटन के शेड्यूल किए शोज के बारे में, [यहां \(here\)](#) अधिक जानकारी प्राप्त करें।

हवाले

“परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्रैम्पटन, लगातार सितम्बर में निवासियों तथा आगंतुकों के लिए, लाइव संगीत, थिएटर और सांस्कृतिक अनुभवों का शानदार लाइनअप पेश करता है! गर्मी के इन बाकी सप्ताहों की योजना बनाते समय सारे शेड्यूल किए गए शोज पर जरूर नजर डालें। यहां हर किसी के आनंद लेने के लिए कुछ न कुछ है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्रैम्पटन, लगातार निवासियों तथा आगंतुकों के आनंद लेने के लिए रोमांचक और विविध अनुभव पेश करता है। ब्रैम्पटन एक मौजैक है और हमारे सांस्कृतिक अनुभव, हमारी कम्युनिटी को सम्पन्न बनाने में मदद करते हैं। मैं हर किसी को सलाह देता हूँ कि उन बेजोड़ संगीतमय और मनोरंजक शोज का आनंद लें!”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें! www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया
multiculturalmedia@brampton.ca